

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 231]

नवा रायपुर, बुधवार, दिनांक 19 मार्च 2025 — फाल्गुन 28, शक 1946

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 19 मार्च 2025

अधिसूचना

File No.: GENCOR/856/2025-GAD-5. — राज्य शासन एतद्वारा छत्तीसगढ़ भवन वाहन पात्रता नियम, 2004 में निम्नानुसार संशोधन करता है, अर्थात् :-

संशोधन

उपरोक्त नियम में,

- (1) नियम 3 के भाग (ग) के सरल क्रमांक-01 में रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के बाद तथा अतिरिक्त सचिव के पूर्व निम्नानुसार और जोड़ा जाए,
कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक
 - (2) नियम 5 वाहन का प्रकार के सरल क्रमांक-01 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-
नियम 3 के खण्ड (क) में उल्लेखित अधिकारियों/पदाधिकारियों/महानुभावों को वित्त निर्देश 14/2024 दिनांक 07-06-2024 के “परिशिष्ट-अ” के सरल क्रमांक 01 से 03 में उल्लेखित अनुसार वाहन दिए जाएंगे।
- 2/ उपरोक्त संशोधन इस आदेश के जारी होने की तिथि से प्रभावशील होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अविनाश चम्पावत, सचिव.